

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अगस्त 2018 — श्रावण 18, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी ध्वन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

अधिसूचना

सं. 22/2018-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (66). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 8/2017- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच/(76) तारीख 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, और जिसको छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 12/2018- राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2018/वाक/पांच/(50) तारीख 29 जून, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 249 तारीख 7 जुलाई, 2018 में प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में "30 सितम्बर, 2018" अंको और शब्दों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2019" अंक और शब्द रखा जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (66). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (66), दिनांक 06-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 6th August 2018

NOTIFICATION  
22/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-41/2018/CT/V (66). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No. 8/2017-State Tax (Rate), F-10-43/2017/CT/V (76), dated the 28th June, 2017 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, and last amended vide notification No. 12/2018-State Tax (Rate), F-10-43/2018/CT/V (50), dated the 29th June, 2018 of the Government of Chhattisgarh, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 249, dated the 7th July, 2018, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and words “30th day of September, 2018”, the figures, letters and words “30th day of September, 2019” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANGEETHA P., Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

अधिसूचना

सं. 31/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (67). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का पूरा प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 फाइल नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ऐसे करदाता” कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

- (i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे की सारणी के अनुसार ब्यौरे, अधिकारिता वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व फाइल करने होंगे।

### सारणी

1	अनन्तिम पहचान सं.	
2	पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं. (करदाता पहचान सं. (टिन)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.)	
3	तारीख, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था	
4	क्या पूर्वोक्त प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 के भाग क को क्रियाशील बनाया गया है	हां/नहीं
5	करदाता के संपर्क ब्यौरे	
5क	ईमेल आईडी	
5ख	मोबाइल	
6	सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण	
7	अधिकारी की अधिकारिता, जिसने अनुरोध किया है	

- (ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को <http://www.gst.gov.in/> पर लागइन करके "सर्विसेस" टैब में और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- (iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, माल और सेवा कर नेटवर्क से, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए एक ईमेल प्राप्त करेंगे।
- (iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से निम्नलिखित ब्यौरे, माल और सेवा कर नेटवर्क को, 30 सितंबर, 2018 को या उससे पूर्व, [migration@gstn.org.in](mailto:migration@gstn.org.in) पर, देने की अपेक्षा होगी :-
- (क) नया जीएसटीआईएन ;
- (ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन ;
- (ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या ;
- (घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी)।
- (v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, माल और सेवा कर नेटवर्क, नए जीएसटीआईएन को पुराने जीएसटीआईएन से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा।
- (vi) ऐसे करदाताओं से, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जनित करने हेतु, सामान्य पोर्टल [www.gstn.gov.in](http://www.gstn.gov.in) पर "पहली बार लाग-इन" के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लागइन करना अपेक्षित होगा।



3. ऐसे करदाता 1 जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2018

क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (67). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-41/2018/वाक/पांच (67), दिनांक 06-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 6th August 2018

NOTIFICATION  
31/2018 – State Tax

No. F-10-41/2018/CT/V (67). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons who did not file the complete FORM GST REG-26 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 but received only a Provisional Identification Number (PID) (hereinafter referred to as "such taxpayers") till the 31st December, 2017 may now apply for Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN).

2. The special procedure to be followed for registration of such taxpayers is as detailed below :-

- (i) The details as per the Table below should be furnished by such taxpayers to the jurisdictional nodal officer of the Central Government or State Government on or before the 31st August, 2018.

TABLE

1	Provisional ID	
2	Registration Number under the earlier law (Taxpayer Identification Number (TIN)/Central Excise/Service Tax Registration number)	
3	Date on which token was shared for the first time	
4	Whether activated part A of the aforesaid FORM GST REG-26	Yes/No
5	Contact details of the taxpayer	
5a	Email id	
5b	Mobile	
6	Reason for not migrating in the system	
7	Jurisdiction of Officer who is sending the request	

- (ii) On receipt of an e-mail from the Goods and Services Tax Network (GSTN), such taxpayers should apply for registration by logging onto <https://www.gst.gov.in/> in the "Services" tab and filling up the application in FORM GST REG-01 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017.

- (iii) After due approval of the application by the proper officer, such taxpayers will receive an email from GSTN mentioning the Application Reference Number (ARN), a new GSTIN and a new access token.
  - (iv) Upon receipt, such taxpayers are required to furnish the following details to GSTN by e-mail, on or before the 30th September, 2018, to migration@gstn.org.in:—
    - (a) New GSTIN;
    - (b) Access Token for new GSTIN;
    - (c) ARN of new application;
    - (d) Old GSTIN (PID).
  - (v) Upon receipt of the above information from such taxpayers, GSTN shall complete the process of mapping the new GSTIN to the old GSTIN and inform such taxpayers.
  - (vi) Such taxpayers are required to log onto the common portal [www.gstn.gov.in](http://www.gstn.gov.in) using the old GSTIN as “First Time Login” for generation of the Registration Certificate.
3. Such taxpayers shall be deemed to have been registered with effect from the 1st July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANGEETHA P., Special Secretary.